

डाबर कम्पनी के नाम पर नकली दवाई बनाने वाला गिरफ्तार

Admin1 | Updated on: 21 July 2019 11:45 AM GMT

Home > उत्तर प्रदेश > मुरादाबाद > डाबर कम्पनी के नाम पर नकली दवाई बनाने वाला गिरफ्तार



फर्रुखाबाद। जिले में रविवार को डाबर इंडिया लिमिटेड के नाम पर बनाए जा रहे नकली उत्पाद, खाली डिब्बे व रैपर बरामद हुए हैं। डाबर कंपनी के जांच अधिकारी और पुलिस टीम ने छापा मार कर नकली दवा बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी के जांच अधिकारी कुमार दया शंकर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि फर्रुखाबाद जिले में डाबर इंडिया लिमिटेड की नकली औषधियां तैयार कर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। इस सूचना पर आज वह फर्रुखाबाद पहुंचे। उन्होंने एसपी अनिल कुमार मिश्रा को जानकारी दी। एसपी ने फतेहगढ़ के कोतवाल अजय नारायण सिंह व कर्नलगंज चौकी इंचार्ज अभय सिंह की टीम गठित कर लोको रोड पर काव्या मेडिकल स्टोर पर छापा मारा।

दया शंकर ने बताया कि यहां मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर एक साथ चलाये जा रहे हैं। छापे के दौरान डाबर कम्पनी के रैपर, स्टीकर, खाली डिब्बे भारी संख्या में बरामद हुए। यहां डाबर कम्पनी की दबाइयां नकली तैयार की जाती थीं। कंपनी का नकली लवण भाष्कर चूर्ण भारी मात्रा में बरामद किया गया। कंपनी के जांच अधिकारी ने बताया कि नकली उत्पाद फर्रुखाबाद के अलावा अन्य स्थानों पर आपूर्ति किया जाता था। उन्होंने बताया कि भारी संख्या में नकली दबाइयां मिलने के बाद कुछ लोग मौके से फरार हो गये। पुलिस ने फर्जी कारोबार करने वाले सुरेश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। तथा दबाइयां, रैपर व अन्य बरामद सामान सीज कर दिया है। कोतवाल अजय नारायण सिंह ने बताया कि यहां बनाई जा रही डाबर कम्पनी की दबाइयां को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। नकली दवाई बनाने वाले सुरेश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है।

Source: <http://www.royalbulletin.in/category/national/uttar-pradesh/moradabad/-184633>